

# SarkariExam.Com

अपडेट सबसे पहले

अब घंटो पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र कुछ मिनटों में ही लीजिये Current Affairs की जानकारी – और रहिए अपडेट ॥ अब से हर रोज RRB Railway ASM/ NTPC – 2, RPF Exam के लिए के Current Affairs के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपडेट हम आपको देंगे, जो करेंगे मदद आपके सभी Exams में और आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा सच ॥

## Special 20 Questions for Current Affairs

**17/03/2020**

Q1. गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में स्थित किस स्थल की यात्रा पर रोक लगा दी है?

क. ताकिसला

ख. श्री करतारपुर साहिब

ग. माकली हिल

घ. तख्त-ए-भाई

भारत के गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब की यात्रा पर रोक लगा दी है. श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को नवंबर में खोला गया था.

Q2. भारत की किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए योजनाओं की घोषणा की है?

क. केरल सरकार

ख. गुजरात सरकार

ग. पंजाब सरकार

घ. मणिपुर सरकार

मणिपुर सरकार ने खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए योजनाओं की घोषणा की है. यह घोषणा बीजेपी की अगुवाई में चल रही सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की है.

Q3. इटली का कौन सा शहर दुनिया का नया वुहान बन रहा है जहा पर अब तक कोरोनावायरस से 1218 मौतें हुई है?

क. रोम

ख. लोम्बार्डी

ग. वेनिस

घ. नैप्लस

इटली का लोम्बार्डी शहर दुनिया का नया वुहान बन रहा है जहा पर अब तक कोरोनावायरस से 1218 मौतें हुई है. अकेले वुहान में अब तक 2600 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है. इटली में हाल ही में एक ही दिन में रिकॉर्ड 368 लोगों की मौत दर्ज की गई है.

Q4. इंडियन सुपर लीग में एटीके ने चेन्नइयन एफसी को हराकर कौन सी बार खिताब जीत लिया है?

क. पहली बार

ख. दूसरी बार

ग. तीसरी बार

घ. चौथी बार

इंडियन सुपर लीग में एटीके ने चेन्नइयन एफसी को हराकर तीसरी बार खिताब जीत लिया है. एटीके के लिए जेवियर हर्नांडिज ने 2 गोल और एडु गार्सिया ने एक गोल किया था जबकि चेन्नइयन एफसी के लिए एकमात्र गोल वाल्सकिस ने किया.

Q5. 17 मार्च 1994 में किस देश के द्वारा नाटो की शान्ति सहयोग योजना में शामिल का फैसला लिया गया है?

क. चीन

ख. अमेरिका

ग. ऑस्ट्रेलिया

घ. रूस

17 मार्च 1994 में रूस के द्वारा नाटो की शान्ति सहयोग योजना में शामिल का फैसला लिया गया है.

Q6. 17 मार्च 2006 को किस देश ने भारत को भरोसेमन्द साझीदार घोषित किया था?

क. चीन

ख. ऑस्ट्रेलिया

ग. अमेरिका

घ. इण्डोनेशिया

अमेरिका ने 17 मार्च 2006 को भारत को भरोसेमन्द साझीदार घोषित किया था.

Q7. भारत की किस पोलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण का 19 मार्च 1939 को जन्म हुआ था?

क. कांग्रेस

ख. भारतीय जनता पार्टी

ग. समाजवादी पार्टी

घ. जन-समाजवादी पार्टी

भारत की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण का 19 मार्च 1939 को जन्म हुआ था. वे वर्ष 2000 से 2001 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे.

Q8. आज के दिन 1977 में भारत की किस प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका का निधन हुआ था?

क. सिद्धेश्वरी देवी

ख. गिरिजा देवी

ग. किशोरी अमोनकर

घ. गंगुबाई हंगल

आज के दिन 17 मार्च 1977 में भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का निधन हुआ था.

Q9. यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीरिया और किस देश में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत भुखमरी के खतरे से होती है?

क. चीन

ख. इण्डोनेशिया

ग. मालदीव

घ. यमन

यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीरिया और यमन में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत भुखमरी के खतरे से होती है. इन क्षेत्रों में चार लाख से अधिक बच्चे भुखमरी के खतरे में हैं.

Q10. निम्न में से किस देश की राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने विपक्षी नेता बेनी गेंट्ज को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है?

क. अमेरिका

ख. ऑस्ट्रेलिया

ग. चीन

घ. इजराइल

इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने विपक्षी नेता बेनी गेंट्ज को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है. लेकिन वे इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और गेंट्ज से संभावित अंतरिम गठबंधन के लिए बातचीत करेंगे.

Q11. जीयूआई का पूर्ण नाम क्या है ?

[क] ग्राफिकल यूजर इंटरफेस

[ख] ग्रटर यूजर इंटरफेस

[ग] ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस

[घ] ग्राफिकल यूजर इंटररेस्ट

Q12. निम्न में से कौनसा फाइल स्वरूप विंडोज 7 में सपोर्ट करता है?

[क] NTFC

[ख] BSD

[ग] EXT

[घ] उपरोक्त सभी

Q13. दस्तावेज को बंद करने के लिए किस शोर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?

[क] Alt+F4

[ख] Ctrl+C

[ग] Ctrl+W

[घ] Ctrl+Q

Q14. 211816K x 1 रैम में सभी स्मृति स्थानों का चयन करने के लिए किते एड्रेस बिट्स की आवश्यकता है?

[क] 8

[ख] 10

[ग] 14

[घ] 16

Q15. इनमें से कौनसी इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है?

[क] स्कैनर

[ख] स्पीकर

[ग] सीडी

[घ] प्रिंटर

Q16. निम्न में से कौनसा वैध वेबसाइट का पता है?

[क] websiteopen@.com

[ख] www.websiteopen

[ग] ww#.websiteopen.com

[घ] [www.websiteopen.com](http://www.websiteopen.com)

Q17. कैथोड रे ट्यूब का एक रूप क्या है?

[क] किबोर्ड

[ख] माउस

[ग] मॉनिटर

[घ] मदर बोर्ड



Q18. तालिका को विभाजित करने के लिए शोर्टकट कुंजी क्या है?

[क] Ctrl+Alt+Enter

[ख] Ctrl+Shift+Enter

[ग] Alt+Space+Enter

[घ] Alt+C+F4

Q19. जेपीईजी का पूरा रूप क्या है?

[क] Joint Photo Electronic Group

[ख] Joint Picture Electronic Group

[ग] Joint Photo Expert Group

[घ] Joint Picture Expert Group

Q20. सॉफ्टवेर जो कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य संचालन को नियंत्रित करता है, उसे वर्गीकृत किया जाता है?

[क] डम्ब प्रोग्राम्स

[ख] फंक्शन सिस्टम

[ग] ऑपरेटिंग सिस्टम

[घ] इन्क्वारी सिस्टम